

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्गा/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 373]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 28 सितम्बर 2018 — आश्विन 6, शक 1940

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

अटल नगर, दिनांक 28 सितम्बर 2018

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-1/2018/1/5. — भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक 20-25-56-पब-एक, दिनांक 8 जून, 1957 के साथ पढ़ी गई परक्राम्य लिखित अधिनियम (निगोशिएबल ईस्ट्रुमेंट्स एक्ट), 1881 (1881 का क्रमांक 26) की धारा 25 के स्पष्टीकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन, यह घोषित करता है कि उक्त स्पष्टीकरण के अंतर्गत सार्वजनिक अवकाशों में पहले से शामिल सभी रविवारों के अतिरिक्त निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित दिन भी वर्ष 2019 के लिए सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक अवकाश के दिन होंगे :-

सार्वजनिक अवकाश (अनुसूची)

क्रमांक	अवकाश का नाम	घोषित अवकाश के दिवसों की संख्या	ग्रेगोरियन कैलेण्डर के अनुसार तारीख	राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार तिथि (शक संवत्)	सप्ताह का दिन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	गणतंत्र दिवस	एक	26 जनवरी	माघ 6, 1940	शनिवार
2.	महाशिवरात्रि	एक	04 मार्च	फाल्गुन 13, 1940	सोमवार
3.	होली	एक	21 मार्च	फाल्गुन 30, 1940	गुरुवार
4.	बैंको की वार्षिक लेखाबंदी	एक	01 अप्रैल	चैत्र 11, 1941	सोमवार

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.	महावीर जयंती	एक	17 अप्रैल	चैत्र 27, 1941	बुधवार
6.	गुड फ्राइडे	एक	19 अप्रैल	चैत्र 29, 1941	शुक्रवार
7.	बुद्ध पूर्णिमा	एक	18 मई	वैशाख 28, 1941	शनिवार
8.	ईद-उल-फितर	एक	05 जून	ज्येष्ठ 15, 1941	बुधवार
9.	ईद-उल-जुहा (बकरीद)	एक	12 अगस्त	श्रावण 21, 1941	सोमवार
10.	स्वतंत्रता दिवस	एक	15 अगस्त	श्रावण 24, 1941	गुरुवार
11.	कृष्ण जन्माष्टमी	एक	24 अगस्त	भाद्र 02, 1941	शनिवार
12.	मोहर्रम	एक	10 सितंबर	भाद्र 19, 1941	मंगलवार
13.	महात्मा गांधी जन्म दिवस	एक	02 अक्टूबर	आश्विन 10, 1941	बुधवार
14.	दशहरा (विजयादशमी)	एक	08 अक्टूबर	आश्विन 16, 1941	मंगलवार
15.	गुरुनानक जन्म दिवस	एक	12 नवंबर	कार्तिक 21, 1941	मंगलवार
16.	क्रिसमस दिवस	एक	25 दिसंबर	पौष 4, 1941	बुधवार

टीप :- सरल क्रमांक-4 में उल्लेखित अवकाश केवल बैंकों एवं कोषालयों हेतु घोषित है.

(2) निम्नलिखित अवकाश के दिन रविवार होने के कारण अलग से अवकाश घोषित नहीं किये गये हैं :-

क्रमांक	अवकाश का नाम	घोषित अवकाश के दिवसों की संख्या	ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार तारीख	राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार तिथि (शक संवत्)	सप्ताह का दिन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	दीवाली (दीपावली)	एक	27 अक्टूबर	कार्तिक 05, 1941	रविवार
2.	ईद-ए-मिलाद (मिलाद-उन-नबी)	एक	10 नवंबर	कार्तिक 19, 1941	रविवार

अटल नगर, दिनांक 28 सितम्बर 2018

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-1/2018/1/5. — राज्य शासन एतद्वारा वर्ष 2019 के लिए, छत्तीसगढ़ के समस्त शासकीय कार्यालयों तथा संस्थाओं हेतु निम्नलिखित सामान्य एवं ऐच्छिक अवकाश घोषित करता है :-

(अ) सामान्य अवकाश

क्रमांक	अवकाश का नाम	घोषित अवकाश के दिवसों की संख्या	ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार तारीख	राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार तिथि (शक संवत्)	सप्ताह का दिन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	गणतंत्र दिवस	एक	26 जनवरी	माघ 6, 1940	शनिवार
2.	महाशिवरात्रि	एक	04 मार्च	फाल्गुन 13, 1940	सोमवार
3.	होली	एक	21 मार्च	फाल्गुन 30, 1940	गुरुवार
4.	रामनवमी	एक	13 अप्रैल	चैत्र 23, 1941	शनिवार
5.	महावीर जयंती	एक	17 अप्रैल	चैत्र 27, 1941	बुधवार
6.	गुड फ्राइडे	एक	19 अप्रैल	चैत्र 29, 1941	शुक्रवार
7.	बुद्ध पूर्णिमा	एक	18 मई	वैशाख 28, 1941	शनिवार
8.	ईद-उल-फितर	एक	05 जून	ज्येष्ठ 15, 1941	बुधवार
9.	कबीर जयंती	एक	17 जून	ज्येष्ठ 27, 1941	सोमवार
10.	ईद-उल-जुहा (बकरीद)	एक	12 अगस्त	श्रावण 21, 1941	सोमवार
11.	स्वतंत्रता दिवस	एक	15 अगस्त	श्रावण 24, 1941	गुरुवार
12.	रक्षाबंधन	एक	15 अगस्त	श्रावण 24, 1941	गुरुवार
13.	कृष्ण जन्माष्टमी	एक	24 अगस्त	भाद्र 02, 1941	शनिवार
13.	मोहर्रम	एक	10 सितंबर	भाद्र 19, 1941	मंगलवार
15.	महात्मा गांधी जन्म दिवस	एक	02 अक्टूबर	आश्विन 10, 1941	बुधवार
16.	दशहरा (विजयादशमी)	एक	08 अक्टूबर	आश्विन 16, 1941	मंगलवार

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
17.	गुरुनानक जन्म दिवस	एक	12 नवंबर	कार्तिक 21, 1941	मंगलवार
18.	गुरु घासीदास जयंती	एक	18 दिसंबर	अग्रहायण 27, 1941	बुधवार
19.	क्रिसमस दिवस	एक	25 दिसंबर	पौष 4, 1941	बुधवार

टीप :-

(1) “निगोशिएबल ईन्स्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 (1881 का क्रमांक 26)” की धारा 25 के अंतर्गत कोषालय एवं उप कोषालय हेतु सार्वजनिक अवकाश इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 28-09-2018 द्वारा घोषित किए गए हैं.

(2) निम्नलिखित अवकाश के दिन रविवार होने के कारण अलग से अवकाश घोषित नहीं किये गये हैं :-

क्रमांक	अवकाश का नाम	घोषित अवकाश के दिवसों की संख्या	ग्रेगोरियन कैलेण्डर के अनुसार तारीख	राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार तिथि (शक संवत्)	सप्ताह का दिन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	डॉ. अंबेडकर जयंती	एक	14 अप्रैल	चैत्र 24, 1941	रविवार
2.	दीवाली (दीपावली)	एक	27 अक्टूबर	कार्तिक 05, 1941	रविवार
3.	ईद-ए-मिलाद (मिलाद-उन-नबी)	एक	10 नवंबर	कार्तिक 19, 1941	रविवार

(ब) ऐच्छिक अवकाश

क्रमांक	अवकाश का नाम	घोषित अवकाश के दिवसों की संख्या	ग्रेगोरियन कैलेण्डर के अनुसार तारीख	राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार तिथि (शक संवत्)	सप्ताह का दिन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	नववर्ष दिवस	एक	01 जनवरी	पौष 11, 1940	मंगलवार
2.	लुई ब्रेल का जन्म दिवस	एक	04 जनवरी	पौष 14, 1940	शुक्रवार
3.	राजिम भक्तिन माता जयंती	एक	07 जनवरी	पौष 17, 1940	सोमवार
4.	विश्व हिन्दी दिवस	एक	10 जनवरी	पौष 20, 1940	गुरुवार
5.	मंकर संक्रांति	एक	14 जनवरी	पौष 24, 1940	सोमवार
6.	पोंगल	एक	15 जनवरी	पौष 25, 1940	मंगलवार

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7.	छेरछेरा	एक	21 जनवरी	माघ 1, 1940	सोमवार
8.	नेताजी सुभाषचन्द्र बोस जयंती	एक	23 जनवरी	माघ 3, 1940	बुधवार
9.	राजिम मेला माघ पूर्णिमा/ संत रविदास जयंती	एक	19 फरवरी	माघ 30, 1940	मंगलवार
10.	छत्रपति शिवाजी जयंती	एक	19 फरवरी	माघ 30, 1940	मंगलवार
11.	महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म दिवस	एक	01 मार्च	फाल्गुन 10, 1940	गुरुवार
12.	होली (होलिका दहन)	एक	20 मार्च	फाल्गुन 29, 1940	बुधवार
13.	वीरांगना अवंति बाई का बलिदान दिवस	एक	20 मार्च	फाल्गुन 29, 1940	बुधवार
14.	हजरत अली का जन्म दिवस	एक	21 मार्च	फाल्गुन 30, 1940	गुरुवार
15.	भाई-दूज	एक	22 मार्च	चैत्र 01, 1941	शुक्रवार
16.	गुडी पड़वा/चैतीचांद	एक	06 अप्रैल	चैत्र 16, 1941	शनिवार
17.	गुहा निषादराज जयंती	एक	10 अप्रैल	चैत्र 20, 1941	बुधवार
18.	हाटकेश्वर जयंती	एक	18 अप्रैल	चैत्र 28, 1941	गुरुवार
19.	धरती पूजा (खद्दी पर्व)	एक	19 अप्रैल	चैत्र 29, 1941	शुक्रवार
20.	श्रीमद् बल्लभाचार्य जयंती	एक	30 अप्रैल	वैशाख 10, 1941	मंगलवार
21.	सेन जयंती	एक	01 मई	वैशाख 11, 1941	बुधवार
22.	परशुराम जयंती	एक	07 मई	वैशाख 17, 1941	मंगलवार
23.	शंकराचार्य जयंती	एक	09 मई	वैशाख 19, 1941	गुरुवार
24.	जमात-उल-विदा	एक	31 मई	ज्येष्ठ 10, 1941	शुक्रवार
25.	छत्रसाल जयंती/महाराणा प्रताप जयंती	एक	06 जून	ज्येष्ठ 16, 1941	गुरुवार
26.	महेश नवमी (ज्येष्ठ शुक्ल)	एक	11 जून	ज्येष्ठ 21, 1941	मंगलवार
27.	वीरांगना दुर्गावती का बलिदान दिवस	एक	24 जून	आषाढ 3, 1941	सोमवार

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
28.	रथयात्रा	एक	04 जुलाई	आषाढ़ 13, 1941	गुरुवार
29.	डॉ. खूबचंद बघेल का जन्म दिवस	एक	19 जुलाई	आषाढ़ 28, 1941	शुक्रवार
30.	हेरेली	एक	01 अगस्त	श्रावण 10, 1941	गुरुवार
31.	नाग पंचमी	एक	05 अगस्त	श्रावण 14, 1941	सोमवार
32.	विश्व आदिवासी दिवस	एक	09 अगस्त	श्रावण 18, 1941	शुक्रवार
33.	पारसी नववर्ष	एक	17 अगस्त	श्रावण 26, 1941	शनिवार
34.	हरछठ	एक	21 अगस्त	श्रावण 30, 1941	बुधवार
35.	पोला	एक	30 अगस्त	भाद्रपद 08, 1941	शुक्रवार
36.	गणेश चतुर्थी	एक	02 सितंबर	भाद्रपद 11, 1941	सोमवार
37.	नवाखाई	एक	05 सितंबर	भाद्रपद 14, 1941	गुरुवार
38.	ढोल ग्यारस	एक	09 सितंबर	भाद्रपद 18, 1941	सोमवार
39.	ओणम	एक	11 सितंबर	भाद्रपद 20, 1941	बुधवार
40.	अनंत चतुर्दशी	एक	12 सितंबर	भाद्रपद 21, 1941	गुरुवार
41.	विश्वकर्मा जयंती	एक	17 सितंबर	भाद्रपद 26, 1941	मंगलवार
42.	प्राणनाथ जयंती	एक	27 सितंबर	आश्विन 05, 1941	शुक्रवार
43.	सर्व पितृमोक्ष अमावस्या	एक	28 सितंबर	आश्विन 06, 1941	शनिवार
44.	दशहरा (महानवमी)	एक	07 अक्टूबर	आश्विन 15, 1941	सोमवार
45.	करवाचौथ व्रत	एक	17 अक्टूबर	आश्विन 25, 1941	गुरुवार
46.	दीपावली (दक्षिण भारतीय)	एक	26 अक्टूबर	कार्तिक 04, 1941	शनिवार
47.	दीपावली का दूसरा दिन	एक	28 अक्टूबर	कार्तिक 06, 1941	सोमवार
48.	भाई दूज	एक	29 अक्टूबर	कार्तिक 07, 1941	मंगलवार
49.	नामदेव जयंती	एक	08 नवंबर	कार्तिक 17, 1941	शुक्रवार
50.	गुरु तेग बहादुर का शहीदी दिवस	एक	24 नवंबर	अग्रहायण 3, 1941	रविवार

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
51.	शहीद वीर नारायण सिंह का बलिदान दिवस	एक	10 दिसंबर	अग्रहायण 19, 1941	मंगलवार
52.	दत्तात्रेय जयंती	एक	11 दिसंबर	अग्रहायण 20, 1941	बुधवार
53.	डॉ. सैय्यदना साहब का जन्म दिवस	एक	18 दिसंबर	अग्रहायण 27, 1941	बुधवार

टीप :-

- (1) प्रत्येक शासकीय सेवक को उपरोक्त ऐच्छिक अवकाशों में से उसकी इच्छानुसार केवल 03 ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी।
- (2) निम्नलिखित ऐच्छिक अवकाशों के दिन रविवार होने के कारण इन्हें ऐच्छिक अवकाश की उक्त सूची में शामिल नहीं किया गया है :-

क्रमांक	अवकाश का नाम	घोषित अवकाश के दिवसों की संख्या	ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार तारीख	राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार तिथि (शक संवत्)	सप्ताह का दिन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	बंसत पंचमी/मां परमेश्वरी जयंती	एक	10 फरवरी	माघ 21, 1940	रविवार
2.	भक्त माता कर्मा जयंती	एक	31 मार्च	चैत्र 10, 1941	रविवार
3.	वैशाखी	एक	14 अप्रैल	चैत्र 24, 1941	रविवार
4.	शब-ए-बारात	एक	21 अप्रैल	वैशाख 01, 1941	रविवार
5.	अग्रसेन जयंती	एक	29 सितम्बर	आश्विन 07, 1941	रविवार
6.	दशहरा (महाअष्टमी)	एक	06 अक्टूबर	आश्विन 14, 1941	रविवार
7.	महर्षि वाल्मिकी जयंती/ महाराजा अजमोद देव जयंती/टिकचंद जी महाराज का समाधि उत्सव/कुवांर पूर्णिमा "करम परब" (त्यौहार)	एक	13 अक्टूबर	आश्विन 21, 1941	रविवार
6.	भगवान सहस्रबाहु जयंती	एक	03 नवंबर	कार्तिक 12, 1941	रविवार

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. राठिया, उप-सचिव.